

# ग्रीष्मकालीन-अवकाश गृहकार्य

## हिन्दी (कक्षा-7)

1. **निम्नलिखित शब्दों के 4-4 पर्यायवाची शब्द लिखो:**—असुर, अश्व, आकाश, आँख, कमल, घर, चंद्रमा, जल, हवा, पृथ्वी
  2. **निम्नलिखित शब्दों के विलोम शब्द लिखो:**—आविर्भाव, अभिज्ञ, आर्द्र, अल्प, अगम, आशा, अनुग्रह, अंधकार, आदि, आय, कटु, कृतज्ञ, आलोक, क्रय, अनुपस्थित
  3. **निम्नलिखित वाक्यांशों के लिए एकशब्द लिखो:**— फेन से भरा हुआ—, प्रिय बोलने वाली स्त्री—, जिसकी उपमा न हो—, जो थोड़ी देर पहले पैदा हुआ हो—, जिसका कोई आधार न हो—, नगर में वास करने वाला—, रात में घूमने वाला—, ईश्वर पर विश्वास न रखने वाला—, मांस न खाने वाला—, बिलकुल बरबाद हो गया हो—, जिसकी धर्म में निष्ठा हो—, देखने योग्य—, बहुत तेज चलने वाला—, जो किसी पक्ष में न हो—, तत्व को जानने वाला—, तप करने वाला—
  4. **निम्नलिखित समरूपी-भिन्नार्थक शब्दों के अर्थ लिखो**—1. अनल-अनिल, 2. उपकार-अपकार, 3. अन्न, अन्य 4. अणु, अनु 5. ओर, और 6. असित, अशित 7. अपेक्षा, उपेक्षा, 8. कल, काल 9. अंदर, अंतर 10. अंक, अंग 11. कुल, कूल 12. अश्व, अश्म 13. अलि, आली 14. कृमि, कृषि 5. अपचार, उपचार 16. अन्याय, अन्यान्य 17. कृति, कृती 18. आमरण, आभरण 19. अवसान, आसान 20. कलि, कली
  5. **निम्नलिखित अनेकार्थी शब्दों के 2-2 अर्थ लिखो:**— अक्षर, अर्थ, आराम, कर, काल, काम, गुण, घन, जलज, तात
  6. **निम्नलिखित में से एक पर अनुच्छेद लिखो**— टीवी के लाभ व हानियाँ, विज्ञान एक वरदान, समाचार पत्रों के लाभ, हमारा देश भारत, ऋतुराज वसन्त, परोपकार
  7. **कोई एक कहानी अपने शब्दों में लिखो**— चाँद का तालाब, स्वामी भक्त नेवला, सियार और बजनेवाला ढोल, गधा और चालाक लोमड़ी, बैल और शेर
  8. **बहन की शादी पर 3 दिन के अवकाश हेतु प्राचार्य को एक पत्र लिखो ।**
  9. **इन लोकोक्तियों का अर्थ लिखकर वाक्य-प्रयोग करो**— बिन माँगे मोती मिले माँगे मिले न भीख, बगल में छुरी मुँह में राम, अधजल गगरी छलकत जाए, अब पछताए होत क्या, जब चिड़ियाँ चुग गई खेत, आम के आम गुठलियों के दाम, ऊँची दुकान फीका पकवान, घर का भेदी लंका ढाए, जिसकी लाठी उसकी भैंस, जल में रहकर मगर से वैर, थोथा चना बाजे घना
  10. **इन मुहावरों का अर्थ लिखकर वाक्य-प्रयोग करो**— आँखों में समाना, कलेजे पर हाथ रखना, कलेजा जलना, कलेजा ठंडा होना, कलेजा थामना, कलेजे पर पत्थर रखना, कलेजे पर साँप लोटना, कान भरना, कान कतरना, कान का कच्चा
- 11. 20 पेज सुलेख लिखो ।**

## संस्कृत (कक्षा-7)

---

1. निम्नलिखित शब्दों के शब्दरूप नदी की तरह बनाओ— भगिनी, मानिनी
2. अधोलिखित शब्दों के शब्दरूप पितृ की तरह बनाओ—भ्रातृ, जामातृ
3. निम्नलिखित शब्दों के शब्दरूप मधु की तरह बनाओ— जानु, तालु
4. अधोलिखित शब्दों के शब्दरूप मुनि की तरह बनाओ— कवि, रवि
5. निम्नलिखित शब्दों के शब्दरूप भानु की तरह बनाओ—शिशु, साधु
6. अधोलिखित धातुओं के लट् लकार के धातुरूप चर् धातु की तरह बनाओ— हस, चल
7. निम्नलिखित धातुओं के लृट् लकार के धातुरूप चर् धातु की तरह बनाओ— खेल, धाव
8. अधोलिखित धातुओं के लङ् लकार के धातुरूप चर् धातु की तरह बनाओ— खाद, पत
9. निम्नलिखित धातुओं के लोट् लकार के धातुरूप चर् धातु की तरह बनाओ— भ्रम, लिख
10. निम्नलिखित धातुओं के विधिलिङ् लकार के धातुरूप चर् धातु की तरह बनाओ— पठ, क्रीड